

27. $509 + 435 = \underline{\quad} + 509$

- a) 436 b) 435 c) 433 d) 434

$509 + 435 = \underline{\quad} + 509$

- a) 436 b) 435 c) 433 d) 434

28. There are 50 boys and 80 girls in a school. How many students are there altogether in the school?

- a) 120 b) 150 c) 130 d) 160

एक स्कूल में 50 लड़के और 80 लड़कियां हैं। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

- a) 120 b) 150 c) 130 d) 160

29. $(503+183) + 94 = 183 + (\dots\dots\dots + 503)$

- a) 94 b) 183 c) 503 d) 96

$(503+183) + 94 = 183 + (\dots\dots\dots + 503)$

- a) 94 b) 183 c) 503 d) 96

30. Add 100 and 20 is

- a) 120 b) 112 c) 100 d) 20

100 जोड़ें और 20

- a) 120 b) 112 c) 100 d) 20

31. Write and tick tens and ones. $32 = \dots\dots\dots$ tens + $\dots\dots\dots$ ones

- a) 4 tens + 5 ones b) 3 tens + 2 ones c) 3 tens + 4 ones d) 2 tens + 2 one

दहाई और इकाई लिखिए और सही का निषान लगाइए। $32 = \dots\dots\dots$ दहाई + $\dots\dots\dots$ वाले

- a) 4 दहाई + 5 वाले b) 3 दहाई + 2 वाले c) 3 दहाई + 4 वाले d) 2 दहाई + 2 एक

32. Which is correct addition?

- a) $3+5=8$ b) $4+1=6$ c) $4+2=5$ d) $2+4=5$

कौन सा जोड़ सही है।

- a) $3+5=8$ b) $4+1=6$ c) $4+2=5$ d) $2+4=5$

33. A fruit seller sold 100 oranges, 200 apples and 100 bananas. How many fruits did he sell altogether?

- a) 500 b) 400 c) 300 d) 600

एक फल विक्रेता ने 100 संतरे, 200 सेब और 100 केले बेचे। उसने कुल कितने फल बेचे?

- a) 500 b) 400 c) 300 d) 600

34. $6+4+7 = \dots\dots\dots$

- a) 10 b) 16 c) 17 d) 15

$6+4+7 = \dots\dots\dots$

- a) 10 b) 16 c) 17 d) 15

35. $640+100 = \dots\dots\dots$

- a) 740 b) 540 c) 840 d) 650

$640+100 = \dots\dots\dots$

- a) 740 b) 540 c) 840 d) 650

36. $42 = \dots\dots\dots$ tens + $\dots\dots\dots$ ones

- a) 3 tens + 2 ones b) 4 tens + 2 ones c) 6 tens + 2 ones d) 2 tens + 2 ones

$42 = \dots\dots\dots$ दहाई + वाले

- a) 3 दहाई + 2 वाले b) 4 दहाई + 2 वाले c) 6 दहाई + 2 वाले d) 2 दहाई + 2 वाले

37. $500 - 200 = \dots\dots\dots$

- a) 300 b) 700 c) 600 d) 400

$500 - 200 = \dots\dots\dots$

- a) 300 b) 700 c) 600 d) 400

38. Manya has 70 cakes. She has given 40 cakes to Rahul. How many cakes were left?

- a) 700 b) 30 c) 90 d) 500

मान्या के पास 70 केक हैं। उन्होंने राहुल को 40 केक लिए हैं। कितने केक बचे थे?

- a) 700 b) 30 c) 90 d) 500

39. $\underline{\quad}$ is 200 less than 800

- a) 300 b) 700 c) 600 d) 100

800 में 200 कम है

- a) 300 b) 700 c) 600 d) 100

40. On subtracting $150 - 125$ we get

- a) 15 b) 25 c) 10 d) 20

$150 - 125$ घटाने पर हमें मिलता है.....

- a) 15 b) 25 c) 10 d) 20

41. $380 - 360$ is

- a) 20 b) 80 c) 90 d) 50

$380 - 360$ है

- a) 20 b) 80 c) 90 d) 50

42. 999 – 111
 a) 763 b) 888 c) 241 d) 666
 999 – 111
 a) 763 b) 888 c) 241 d) 666
43. What number is 100 less than 900
 a) 200 b) 800 c) 700 d) 600
 कौन सी संख्या 900 से 100 कम है
 a) 200 b) 800 c) 700 d) 600
44. Which number can you subtract to get this difference? 400
 a) 500 - 100 b) 600 - 300 c) 200 - 100 d) 200 - 200
 इस अंतर को पाने के लिए आप किस संख्या को घटा सकते हैं? 400
 a) 500 - 100 b) 600 - 300 c) 200 - 100 d) 200 - 200
45. What number is 300 less than 400?
 a) 100 b) 700 c) 200 d) 50
 कौन सी संख्या 400 से 300 कम है?
 a) 100 b) 700 c) 200 d) 50
46. Amana has 260 pens. She gave 160 pens to her friends. How many pens are left with her?
 a) 200 b) 100 c) 300 d) 500
 अमाना के पास 260 पेन हैं। उसने अपने दोस्तों को 160 पेन दिए। उसके पास कितने पेन बचे हैं?
 a) 200 b) 100 c) 300 d) 500
47. Which number can you subtract to get this difference? 945
 a) 1000 - 185 b) 900 - 45 c) 1000 - 55 d) 1000 - 165
 इस अंतर को पाने के लिए आप किस संख्या को घटा सकते हैं? 945
 a) 1000 - 185 b) 900 - 45 c) 1000 - 55 d) 1000 - 165
48. I am a number just before 545 – 1
 a) 540 b) 544 c) 427 d) 543
 मैं 545 - 1 के ठीक पहले की एक संख्या हूँ
 a) 540 b) 544 c) 427 d) 543
49. The difference between 620 – 20 is
 a) 600 b) 521 c) 639 d) 619
 620 - 20 के बीच का अंतर है
 a) 600 b) 521 c) 639 d) 619
50. A Farmer had 360 oranges. He sold 200 oranges. How many oranges are left?
 a) 150 b) 160 c) 450 d) 120
 एक किसान के पास 360 संतरे थे। उसने 200 संतरे बेचे। कितने संतरे बचे हैं?
 a) 150 b) 160 c) 450 d) 120

SCIENCE

51. What do we need to cover our body?
 a) Hat b) clothes c) socks d) gloves
 हमें अपने शरीर को ढकने के लिए क्या चाहिए?
 a) टोपी b) कपड़े c) मोजे d) दस्ताने
52. Cotton clothes keep us
 a) Cool b) Warm c) Healthy d) none of these
 सूती कपड़े हमें रखते हैं
 a) ठंडा b) गर्म c) स्वस्थ d) इनमें से कोई नहीं
53. We get cotton from _____
 a) Silk worm b) Cotton Plant c) Honey bee d) Sheep
 कपास हमें _____ से प्राप्त होती है
 a) रेशम का कीड़ा b) कपास का पौधा c) मधुमक्खी d) भेड़
54. We get silk from _____
 a) Silk Worm b) Sheep c) honey bee d) cow
 रेशम हमें _____ से प्राप्त होता है
 a) रेशम कीड़ा b) भेड़ c) मधुमक्खी d) गाय

55. We get wool from
 a) Goat b) sheep c) cow d) tiger
 उन हमें किससे प्राप्त होता है?
- a) बकरी b) भेड़ c) गाय d) बाघ
56. In which season we wear sweater?
 a) Summer b) winter c) rainy d) none of these
 हम किस मौसम में स्वेटर पहनते हैं?
- a) गर्मी b) सर्दी c) बरसात d) इनमें से कोई नहीं
57. Special dress some people wear to work
 a) Woollen b) silk c) uniform d) none of these
 विशेष पोशाक कुछ लोग काम पर पहनते हैं
- a) ऊनी b) रेशम c) वर्दी d) इनमें से कोई नहीं
58. People who do not wear uniform.
 a) Policeman b) doctor c) pilot d) vegetable seller
 वर्दी नहीं पहनने वाले लोग हैं।
- a) पुलिसकर्मी b) डॉक्टर c) पायलट d) सब्जी विक्रेता
59. the traditional dress of Indian woman is _____
 a) Saree b) Kurta c) sweater d) shirt
 भारतीय महिला की पारंपरिक पोशाक _____ है
- a) साड़ी b) कुर्ता c) स्वेटर d) शर्ट
60. The process by which cotton threads becomes a cloth is called _____
 a) Spinning b) shearing c) weaving d) none of these
 जिस प्रक्रिया से सूती धागे कपड़ा बनते हैं उसे _____ कहा जाता है
- a) कताई b) कतरनी c) बुनाई d) इनमें से कोई नहीं
61. In which season people wear raincoat?
 a) Summer b) rainy c) winter d) none of these
 लोग रेनकोट किस मौसम में पहनते हैं?
- a) गर्मी b) बरसात c) सर्दी d) इनमें से कोई नहीं
62. Cotton, woollen and silk are types of _____
 a) Country b) clothes c) vegetables d) animals
 कपास, ऊनी और रेशम _____ के प्रकार हैं
- a) देश b) कपड़े c) सब्जियां d) जानवर
63. Special dress of a country is called _____
 a) Uniforms b) traditional dress c) kimono d) none of these
 किसी देश की विशेष पोशाक _____ कहलाती है
- a) वर्दी b) पारंपरिक पोशाक c) किमोनो d) इनमें से कोई नहीं
64. The dress you wear for school.
 a) uniform b) jeans c) frock d) none of these
 आप स्कूल के लिए जो पोशाक पहनते हैं।
- a) वर्दी b) जींस c) कुरती d) इनमें से कोई नहीं
65. Which type of clothes can be knitted at home.
 a) cotton cloth b) silk cloth c) woollen clothes d) none of these
 घर पर किस तरह के कपड़े बुन सकते हैं।
- a) सूती कपड़ा b) रेशमी कपड़ा c) ऊनी कपड़े d) इनमें से कोई नहीं
66. The process by which hair is collected from a sheep's body is called _____
 a) shearing b) weaving c) spinning d) none of these
 भेड़ के शरीर से बाल एकत्र करने की प्रक्रिया को _____ कहा जाता है।
- a) कतरनी b) बुनाई c) कताई d) इनमें से कोई नहीं

67. What do we use to protect ourselves from the sun's rays.
 a) Sunglasses b) hats c) umbrellas d) all of these
 सूरज की किरणों से खुद को बचाने के लिए हम किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं।
 a) धूप का चश्मा b) टोपी c) छतरियां d) ये सभी
68. We wear woollen clothes to keep us
 a) Cool b) warm c) energetic d) none of these
 हम अपने आप.....को रखने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं
 a) कूल b) गर्म c) ऊर्जावान d) इनमें से कोई नहीं
69. Clothes protect us from
 a) heat b) cold c) rain d) all of these
 कपड़े हमारी रक्षा करते हैं
 a) गर्मी b) ठंड c) बारिश d) ये सभी
70. In which season people like to swim in swimming pool?
 a) Summer b) Winter c) rainy d) none of these
 लोग किस मौसम में स्विमिंग पूल में तैरना पसंद करते हैं?
 a) गर्मी b) सर्दी c) बरसात d) इनमें से कोई नहीं
71. We have breakfast in the
 a) Morning b) evening c) noon d) night
 हमने नाश्ता किया
 a) सुबह b) शाम c) दोपहर d) रात
72. Rice, wheat, sugar, ghee and butter are called
 a) Body building food b) energy giving food c) protective food d) none of these
 चावल, गेहूँ, चीनी, घी और मक्खन कहलाते हैं
 a) शरीर निर्माण भोजन b) ऊर्जा देने वाला भोजन
 c) सुरक्षात्मक भोजन d) इनमें से कोई नहीं
73.We need food to get
 a) air b) energy c) water d) none of these
प्राप्त करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है
 a) वायु b) ऊर्जा c) पानी d) इनमें से कोई नहीं
74. Which one is example of body building food
 a) meat b) wheat c) fruits d) sugar
 बॉडी बिल्डिंग फूड का उदाहरण कौन सा है
 a) मांस b) गेहूँ c) फल d) चीनी
75. Protective food help to protect us from
 a) insects b) animals c) diseases d) trees
 सुरक्षात्मक भोजन हमें किससे बचाने में मदद करता है
 a) कीड़े b) जानवर c) रोग d) पेड़
76. Vegetarians eat _____
 a) Fish b) meat c) eggs d) vegetables
 शाकाहारी खाते हैं _____
 a) मछली b) मांस c) अंडे d) सब्जियां
77. Non vegetarians eat _____
 a) fruits b) pulses c) meat d) vegetables
 मांसाहारी _____ खाते हैं
 a) फल b) दालें c) मांस d) सब्जियां
78. Food we get from animals.
 a) Banana b) Potato c) rice d) eggs
 भोजन हमें जानवरों से मिलता है।
 a) केला b) आलू c) चावल d) अंडे

90. A meal that includes some amount of body building food, energy giving food and protective food is called

- a) raw food b) balanced diet c) junk food d) none of these

एक भोजन जिसमें कुछ मात्रा में शरीर निर्माण भोजन, ऊर्जा देने वाला भोजन और सुरक्षात्मक भोजन शामिल होता है, कहलाता है

- a) कच्चा भोजन b) संतुलित आहार c) जंक फूड d) इनमें से कोई नहीं

91. How many times we should take bath?

- a) everyday b) once in a week c) after 15 days d) none of these

हमें कितनी बार स्नान करना चाहिए?

- a) प्रतिदिन b) सप्ताह में एक बार c) 15 दिनों के बाद d) इनमें से कोई नहीं

92. What should we do to keep ourselves healthy?

- a) Watch television b) exercise regularly c) eat junk food d) none of these

खुद को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए?

- a) टेलीविजन देखें b) नियमित रूप से व्यायाम करें c) जंक फूड खाएं d) इनमें से कोई नहीं

93. We should brush our teeth.

- a) once in a day b) three time c) twice a day d) none of these

हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए।

- a) दिन में एक बार b) तीन बार c) दिन में दो बार d) इनमें से कोई नहीं

94. Take a bath with

- a) soap and water b) dirty water c) drinking water d) boiled water

स्नान करें

- a) साबुन और पानी b) गंदा पानी c) पीने का पानी d) उबला हुआ पानी

95. Good health makes the family.

- a) sad b) happy c) angry d) none of these

अच्छा स्वास्थ्य परिवार बनाता है।

- a) उदास b) खुश c) गुस्सा d) इनमें से कोई नहीं

96. The external part of our body is

- a) eyes b) nose c) ears d) all of these

हमारे शरीर का बाहरी भाग है

- a) आंखें b) नाक c) कान d) ये सभी

97. The internal part of our body is

- a) brain b) lips c) head d) neck

हमारे शरीर का आंतरिक भाग है

- a) मस्तिष्क b) होंठ c) सिर d) गर्दन

98. How many sense organs are there in our body.

- a) seven b) five c) three d) two

हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं।

- a) सात b) पांच c) तीन d) दो

99. The frame work of bones is called _____

- a) heart b) lungs c) kidneys d) skeleton

हड्डियों के फ्रेम वर्क को _____ कहा जाता है

- a) दिल b) फेफड़े c) गुर्दे d) कंकाल

100. The hard part of our body is

- a) bones b) muscles c) lungs d) brain

हमारे शरीर का कठोर अंग है

- a) हड्डियां b) मांसपेशियां c) फेफड़े d) मस्तिष्क